NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401 Phone: 91-7419885077, Email:newtimeinfra2010@gmail.com

Website: www.newtimeinfra.in

Ref: NIL/BSE/2020

Date: March 19, 2021

The Manager
Listing Department
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Security Code: 531959

<u>Subject: Submission of Newspaper cutting pertaining to Notice of 36th Annual General Meeting, E voting and Book Closure</u>

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed newspaper cuttings pertaining to Notice of 36th Annual General Meeting, E voting and Book Closure published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on March 18, 2021.

You are requested to take the same on your records. Thanking You,

For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Ashish Pandit Director

DIN: 00139001

FINANCIAL EXPRESS

proposed Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 18th & 19th March 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 24th & 25th March 2021. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification. the interested persons may contact the concerned branch office of our client.

Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.



auction of the property of the borrower 1. Sh. Umesh Kumar Garg (Proprietor) M/s Golden Food in which the Earnest Money Deposit (EMD) was inadvertently published as Rs 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs Only) however it should be read as Rs 10,00,000/-(Ten Lakhs Only). All other details will remain the same Sd/- Authorised Officer, Place: Ghaziabad Date: 17.03.2021 Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd.

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such neid responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



(Notice under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002)

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from ORIX Leasing & Financial Services India Limited. The loans of the below mentioned borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI Guidelines. Amounts due by them to ORIX Leasing & Financial Services India Limited, are mentioned as per the respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of Borrowers	Outstanding as per 13(2) Notice		Details of Secured Asset
+	LN	SME	1. KAMAL PRUTHI	Rs.	12-Mar-21	Prop no. K-12, Two shop
	0000000013241	Secured	2. MONIKA PRUTHI	2984845.93/-		on GF, Mahabir Nagar
		Loan	3. DEEPAK PRUTHI			New Delhi-110018
			4. AMITA PRUTHI			
2	LN	SME	1. SUNNY THAKUR	Rs.	12-Mar-21	H No-136, First floor
	0000000002967	Secured	2. MONIKA THAKUR	4918115.75/-		with roof right, Shyam
		Loan				Park, Main Sahibabad
						Ghaziabad-201005
You	are hereby called	upon to pa	ly the amounts due to O	RIX Leasing &	Financial Ser	vices India Limited as pe


details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec. 14 of the SARFAESI Act, against the mortgage properties mentioned herein above to realize the amount due to ORIX Leasing & Financial Services India Limited. Further you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale/ lease or otherwise

Date: 17.03.2021 Place: New Delhi

Authorised Officer

ORIX Leasing & Financial Services India Limited

Authorised Officer ORIX Leasing & Financial Services India Limited



Srinagar 190 015 (J&K) e-RFQ Notice (e-NIT)

Two(2) Years from 01-06-2021 to 31-05-2023

The Bidder should be Prospective IBA Approved Security Form Printers for Printing & Supply of Cheque Books / Security Forms

https://eauction.auctiontiger.net w.e.f. March 18, 2021, 16.00 Hrs. Tender Document can also be downloaded from Bank's Official Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is April 08, 2021, 17.00 Hrs.

Dated: 16-03-2021



ESCORTS LIMITED (CIN - L74899HR1944PLC039088)

Notice is hereby given that the following shares bearing distinctive numbers

are stated to have been lost/ misplaced or stolen and the registered holder(s)/

Share Holder Name(s)/ Pollo No./ No. of Shares	Details of Equity Shares Lost
ANUPAM GHULATI/ ANJLI GHULATI ESC0034847/ SHARES - 32	Dist. No.: 20839133-20839159 33566564-33566568
SURENDRA KUMAR JAIN ESC0029269/ SHARES-100 - IEPF	Dist. No.: 20420995-20421044 27173399-27173423 33423399-33423423
BIRENKUMAR JASANI ESC0108051/ SHARES- 50	Dist. No.: 28555534-28555583
MONIKA JASHANI ESC0125112/ SHARES - 50	Dist No.: 29961484-29961533
JYOTIRMOY SARKAR ESC0117103/ SHARES - 100	Dist No.: 23062134-23062233
MOHANBHAI DAHYABHAI DESAI (Deceased)/ NAREN MOHANBHAI DESAI (Joint Holder) ESC0124901/ SHARES- 146	Dist No.: 64670006-64670051 23692759-23692808 29942759-29942808
MOHAN KUMAR BARANWAL ESC0054114/ SHARES - 200	Dist No.: 8386556-8386605 9396992-9397041 20520327-20520426

lodge claim in writing with the Company within 15 days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue

duplicate share certificate(s) to the registered holder(s)/applicant(s). 15/5, Mathura Road, Faridabad-121003, Haryana

Phone no.: 01292250222, E-mail: corpsl@escorts.co.in Satyendra Chauhan Website: www.escortsgroup.com Company Secretary & Compliance Officer Date: 17.03.2021

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED CIN No.: L24239HR1984PLC040797

2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated to as "relevant circulars").

whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories along with E-voting Instructions, dated 12th March, 2021 for 36th Annual General Meeting for Financial Year 2019-20 by electronically along with the details of Login ID and Password. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015

during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:

2021. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 02nd April, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.

Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Tel: 011-29961281-83 Email: beetalrta@gmail.com . However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID

and password for casting the vote through e-voting The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 is available at company's website at www.newtimeinfra.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE

section 'Notes' in Notice of the 36th AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but

shall not be entitled to cast their vote again through online voting.

Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) For Newtime Infrastructure Limited

DIN: 00139001

ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED Plot No. 94. Marol Co-operative Industrial Estate. Andheri Kurla Road. Andheri (East), Mumbai- 400059 ORIX

No.	No.	Loan		as per 13(2) Notice		Asset
н	LN	SME	1. KAMAL PRUTHI	Rs.	12-Mar-21	Prop no. K-12, Two shop
	0000000013241		2. MONIKA PRUTHI	2984845.93/-		on GF, Mahabir Nagar
		Loan	3. DEEPAK PRUTHI			New Delhi-110018
			4. AMITA PRUTHI			
2	LN	SME	1. SUNNY THAKUR	Rs.	12-Mar-21	H No-136, First floor
	0000000002967	Secured	2. MONIKA THAKUR	4918115.75/-		with roof right, Shyam
		Loan				Park, Main Sahibabad
						Ghaziabad-201005
You	are hereby called	upon to pa	y the amounts due to 0	RIX Leasing &	Financial Sei	rvices India Limited as pe
4-4-1	ملم ممالة منا منتنج ملم ما		براغ والمتار المتناء ويتناه والمالي			and a second

AXIS BANK Sale Notice for Sale Immovable Property Retail Assets Center: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow-226010 : 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025 Registered Office : 'Trishul', 3rd floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor. The Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 09.04.2021 at 11:00 am (Last date of submitting bid is 08.04.2021 till 5:00 pm) for recovery of Rs. 28.01,777/- (due as on 10.11.2016 along with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred up to the date of actual payment and/or realization) due to the secured creditor from Mr. Jitendra Kumar Mangla (Borrower) and Mrs. Rekha Mangla (Co-borrower). The reserve price will be Rs.19,26,000.00 and the earnest money deposit will be Rs. 1,92,600.00. Location / Details of the Immovable Property and the plant and Encumbrances, if any Account Number

machinery (as applicable)/ Secured Assets possessed and put for sale

	Situated at Flat Number 419-A(420), 4th Floor, Block B, Manglam Niket, Shashtri Puram, Agra-282005. which is in the name of Mrs. Rekha Mangla Area-149 Sq.Mtr. Boundaries: East - Corridor / Entrance, West -Open to Sky, North-Flat Number 418, South- Flat Number 422 / Open Sky	NO
For detailed terms	and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured of	reditor's web

https://www.axisbank.com/auction-notices/ Date: 18.03.2021, Place: Lucknow

(Authorized Officer), AXIS BANK LTD.

POSSESSION NOTICE

DCB BANK

known to the Bank

Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co-borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the said

The borrowers and co- borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules

Sr.	Loan Account	Details of The Borrowers /	Description of Secured	Date of	Amount	Date of
No.		Co-borrowers	Assets	Demand Notice	Demanded	Possession
1	DRBLDEL00415532	Anis Khan, Gulsita Trading co. and Rizwana Begam	Plot No.150, Old No. 480, Gali No. 1, Meerut Road, Hindan Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001	11/07/2019	Rs. 88,92,532 (Rupees Eighty Eight Lakh, Ninety Two Thousand, Five Hundred & Thirty Two).	13.03.202

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. Place: Ghaziabad, Uttar Pradesh Date: 18.03.2021 Authorized Officer

Branch: 7/56, 3rd Floor, Desh Bandhu Gupta Road Karol Bagh, New Delhi - 110005 Web.: www.dcbbank.com Tel: (011) 45016060 / 55 DCB BANK

AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER RULE 9(1) OF SARFAESI ACT

SALE Notice for sale of Immovable Assets Charged to the DCB BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to 8(6) of the security Interest (Enforcement) Rule, Notice is hereby given to the public in general and to the borrower, co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB Bank Limited. The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 08.01.2021. The property will be sold by tender cum public auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-

The property will be sold "as is where is", "as is what is" and "Whatever there is" condition. Name of the Barreway

& Guarantors	Mortgage Property	Reserve Price	Deposit (EMD)	of Inspection	AC 2002 CONTRACTOR	
Mr. Jitendra Kumar And Pushp Lata Dass	Flat No. UG - 4 UGF, Block - 2, Panchsheel Prime Rose, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201003	Rs. 24,00,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Only)	Rs. 2,40,000/- (Rupees Two Lakh Forty Thousand Only)	09-04-2021 11:30 AM To 4:00 PM	23-04-2021 10:30 AM To 01:30 PM	Physical

interested buyer may send their offer for the above property in the sealed envelope along with Demand Draft in favor of "DCB Bank Limited" New Delhi toward the "Earnest Money Deposit" at DCB Bank Limited, 7/56 3rd Floor, Desh Bandhu Guota Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 on or before 06:00 PM of 22-04-2021. The sealed offer will be opened on 23-04-2021 at 10:30 AM on the date of auction at above mentioned branch. The EMD is refundable without any interest if the bid is not successful. The intending buyer may inspect the property / asset latest by the date mentioned above for which they may contact Mr. Pramod Chand or Mr. Shyamsunder Chandhok (09990338759, 011 45016060 and 011-45016055). For detailed terms and conditions of the auction sale please refer to the link https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner

Date: 18.03.2021

Place : Ghaziabad

punjab national bank **BRANCH OFFICE:** CIRCULAR ROAD, ABOHARTogether for the better

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred

under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each account. The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the

said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank, for the amount and interest thereon. The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of

the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s). **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Name of the Borrower(s)/ Guaranator(s)/ Mortgagor(s)	Description of the	Date of Demand Notice		Amount Outstanding	
Borrower : M/s D	All parts and parcels of the	02.11.2020	16.03.2021	Rs. 17,83,06,888.22	
Add. Opposite Kumar Filling Station, Fazilka Road, Abohar & Sh.	property of Residential Flat no 80, First Floor, CU-92 Anand Vihar, Pitampura Delhi measuring 183.34 Sq. Yds. vide sale deed no 11024 Book no 1 Vol. No.527 Page	Lacs Six Thous Eight and Pair 31.07.2020 wi	and Eight H sa Twenty ith further	undred Eighty Two Only) as interest w.e.f.	

Sh. Nanak Chand R/o 147-152 dated 04.08.2006 and other charges & expenses. " less 165/1990, Street No. bounded as East: Plot no. 81, Bus Stand, Abohar. West: Plot no.79, North: Road & South: S/Lane. Owned by Smt. Neeta

recovery if any"

Vihar, North West Delhi, Delhi, Sh. Ramnish Mahindru S/o Sh. Hakumat Rai R/o 17/III B Dharam Pura Colony, Batala, Sh. Rajeev Mahindru S/o Sh. Hakumat Rai, Sh. Aseem Mahindru S/o Sh. Hakumat

Rai Both are R/o 17/III C Dharam Pura Colony, Batala, Sh. Mukesh Kumar S/o Sh. Ashok Kumar R/o Street No. 2, Ekta Colony, Abohar & Sh. Sumit Doda S/o Sh. Nanak Chand R/o 165/1990, Street No. 15, Ward No. 29, Near Bus Stand, Abohar. Place: Abohar **Authorized Officer**

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the proposed Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 18th & 19th March 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 22nd & 24th March 2021. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned branch office of our client.

> Kohli & Sobti Advocates. A 59A, First Floor, Laipat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461



उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ए-1/4,लखनपुर, कानपुर इ-ानावदा सूचना

कायालय सम्पात्त आधकारा,

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आफीसर्स कालोनी, नवाबगंज, कानपूर यूपीएसआईडीसी/ यूपीसीडा, मुख्यालय भवन कानपुर एवं एनसीआर कैपिटल रीजन एव उत्तर प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु कुशल एवं अनुभवी सुरक्षा एजेंसी के चयन करने हेत र्ड– निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. जो दिनांक 19.03.2021 को पर्वाहन 11.00 बजे से दिनांक 05.04.2021 को अपराहन 5.00 बजे तक अपलोड़ की जा सकती है। जिन्हें दिनांक 06.04.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मुल प्रतियां दिनांक 08.04.2021 को शाम 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। **निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जीएसटी सहित दरें अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा।** निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी निगम की website:www.upsidc.com पर स्थित ई–लिंक एवं यपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। सम्पत्ति अधिकारी

उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०.कानपर

FORM NO.URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies

- Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No.6,7,8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that GT Valuation Advisors LLP, an LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a Company limited by shares. The Principal object of the company is to carry on the business to advise regarding all type of
- valuation services such as Business and Equity Valuation, Financial Reporting and Tax Valuations, Brand and Intangible Asset Valuation, Industrial and Plant and Machinery Valuation, Real Estate Valuation, Mines and Mineral Reserve Valuation, Specialised Asset and Infrastructure Valuations.
- A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed Company may be inspected at the office at L-41, Connaught Place, New Delhi -110001.
- Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon (Harvana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its registered office.

Dated this 17 day of March, 2021

1. Vikarth Vasanth Kumar (Designated Partner) 2. Manish Saxena (Designated Partner)

Name(s) of Applicant

Caparo Power Limited CIN: U40101DL2008PLC219872 Reg. Office: 1007 - 1010, 10th Floor, Kailash Building, 26 Kasturba Gandhi Marg,

New Delhi - 110001 **Telephone:** 011-43251111, Fax: 011-43251140 Email: secretarial@caparo.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFIC ATE(S)

Notice is hereby given that below mentioned share certificate(s) issued by Caparo Power Limited is reported lost/ misplaced by Asian Colour Coated Ispat Limited. The shareholder has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate(s). Any person who has claim in respect of below mentioned shares should communicate the same to the Company at its registered office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of these shares, if no communication received. Thereafter, any person dealing with such share certificate(s) will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

	Folio No	Type of Shares	No. of	Distinc	tive No.	Share Certificate	
	1 0110 110		Shares	From	То	No.	
	12	Equity	38,23,781	23940001	27763781	15	
	PS-7	Preference	32,00,000	4377123	7577122	8	
	11				For Can	aro Power I imited	

Place: New Delhi Dated: 17th March, 2021

IDBI Bank Ltd, (A) IDBI BANK 208. Ground Floor, Mercantile Building, Main Fatehpuri Chowk,

CIN: L65190MH2004GO1148838 Chandni Chowk, New Delhi Pin :110006 [Rule - 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of IDBI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 27/10/2020 calling upon the borrower/Guarantor/Mortgagor M/s Jagdish Papers Corporation (Proprietor Shri Jagdish Prasad Swami) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.30,88,395.85/- (Rupees Thirty Lacs Eighty Eight Thousand Three Hundred Ninety Five only) as on 01.03.2020 with incidental expenses, cost, charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken symbolic possession of, the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 12th day of March of the year 2021.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of IDBI Bank Limited for an amount Rs.30,88,395.85/- (Rupees Thirty Lacs Eighty Eight Thousand Three Hundred Ninety Five only) as on 01.03.2020 together with further interest thereon. The Borrower(s) /Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to

provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FREEHOLD COMMERCIAL ONE SHOP ON GROUND FLOOR, ADMEASURING 6.96 SQ MTRS BEARING PVT. NO. 05, WITHOUT ROOF RIGHTS, BEARING PART OF

PROPERTY MUNICIPAL NOS. 947 948 949, SITUATED AT CHHOTA CHHIPIWARA KHRUD,: CHHATTA SHAHJI, CHAWARI BAZAR, WARD NO. IV, DELHI AND BOUNDED AS UNDER: ON OR TOWARDS EAST BY: PROPERTY OF MR. BISHAMBER DAYAL ON OR TOWARDS WEST BY: PROPERTY NO. 946/2498. OF ABDUL QADAR SAHEB ON OR TOWARDS NORTH BY: PROPERTY NO. 2498, ABDUL QADAR SAHIBAND MAHAL SARAJ, CHHIPIWARA KHURD, CHAWARI BAZAR DELHI ON OR TOWARDS SOUTH BY: PROPERTY SARKARI CHOWK AND MELA RAM MARKET TOGETHER WITH ALL THE BUILDINGS AND STRUCTURES THEREON AND ALL PLANTS AND MACHINERY ATTACHED TO THE EARTH OR PERMANENTLY FASTENED TO ANYTHIGING ATTACHED TO TE EARTH.

IDBI Bank Ltd. Place: Delhi

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

GLOBAL INTERACTIVE MALLS PRIVATE LIMITED PARTICULARS NAME OF CORPORATE DEBTOR GLOBAL INTERACTIVE MALLS PRIVATE LIMITED

Date of Incorporation of Corporate Debtor | 14/01/2010 Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered

Corporate Identity No. / Limited Liability U52100DL2010PTC197971 Identification No. of Corporate Debtor A-1/54, Lower Ground Floor, Safder Address of the registered office & principal office (if any) of Corporate Jung Enclave, New Delhi -110029

Date of closure of Insolvency 22/12/2020 Resolution Process 15/03/2021 (Correct order dated Liquidation commencement date

15/03/2021 received on 16/03/2021) of Corporate Debtor Name & Registration Number of Mahavir Parshad Jain Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00894/ Insolvency Professional acting as 2017-2018/11491

Address: M-4, Harsha House, Karampura Commercial Complex, Delhi- 110015 as registered with the Board Email: jain.mp54@gmail.com Address and e-mail to be used for Address: B A-1/52, 3rd Floor, correspondence with the liquidator Paschim Vihar, New Delhi- 110063 Email: jain.mp54@gmail.com

the commencement of liquidation of the Global Interactive Malls Private Limited on 15/03/2021. (Correct order dated 15/03/2021 received on 16/03/2021) The stakeholders of Global Interactive Malls Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 16/04/2021, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

FORM NO 155

See Rule 329 of Companies (Court) Rules, 1959] Members Voluntary Winding-Up Name of the Company: BILL & PEGGY BRITT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED CIN: U74140DL1998PTC094521

NOTICE CONVENING FINAL MEETING

Notice is hereby given in pursuance of Section 497 of Companies Act, 1956 that a general meeting of members of the above-named company will be held at 220, Vinoba Puri, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024, delhi on Tuesday, the day of 23 March, 2021 at 09:00 AM Onwards at shorter notice for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company ispose of and hearing of any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company, the manner in which the books, accounts and documents of the company and of

For BILL & PEGGY BRITT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED Dated this : 18.03.2021 Mr. Sahil Gaur

[Signature of Liquidator]

the liquidators shall be disposed of.

Form No. INC- 25A Publication for conversion of public company into a private company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region

n the matter of the Companies Act, 2013, section

14 of Companies Act. 2013 and rule 41 of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/s Kesri Investments Limited having its registered office at D-3/2, Okhla Phase

II. Okhla Industrial Area. Delhi-110020. Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application

to the Central Government under section 14 of

the Companies Act, 2013 read with aforesaid

rules and is desirous of converting into a private

limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 22nd February 2021 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to

the address mentioned below: Address of registered office: Kesri Investments Limited, D-3/2, Okhla Phase II.

the applicant company at its registered office at

Okhla Industrial Area, Delhi-110020. For and on behalf of the Applicant

Saket Kumar Mishra

Director

DIN: 07716693

Form no INC-26 [[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government

Place: New Delhi

Date: 17.03.2021

New Delhi In the matter of sub-section (4) of section 13 Companies Act, 2013 and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

The Regional Director, Northern Region,

In the matter of M/s Mamsys Consultancy Services Private Limited having its egistered office JA-0411. 4th Floor DLF Tower-A, Plot No. 10, Jasola District Centre New Delhi 110025.

Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association o the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General meeting held on 12th February, 2021 to enable the Company to change its Registered office from 'The National Capital Territory (NCT) of Delhi" to

Sd/-

Mani Ahuia

Company Secretary

Authorised Officer

'The State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi Delhi at the address B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delh 110003, within Fourteen days from the date of

publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned below: Registered office: JA-0411, 4th Floor DLF Tower-A, Plot No. 10, Jasola District Centre New Delhi 110025.

For and on behalf o M/s Mamsys Consultancy Services Private Limited Yogesh Sharma

Date:- 17.03.2021 Director DIN: 03535925 Place:- New Delhi

PUBLIC NOTICE

Form No : INC -26

(Incorporation) Rules, 2014 BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR. MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NORTHERN REGION, NEW DELHI

Pursuant to Rule 30 of the Companies

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of he Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of M/s KRISHI LAND FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED CIN: U70200DL2012PTC246539 T having its Regd. Office at: 7 Osho Drive

Gadaipur, Mehrauli, New Delhi-110030

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, New Delhi under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-

Ordinary General Meeting of the

Company held on 15.03.2021 to enable the Company to change its Registered office from National Capital Territory of Delhi to State of Karnataka. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by Registered Post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region,

at the address B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at the registered office address mentioned below: 7 Osho Drive Gadaipur, Mehrauli, New Delhi-110030.

For M/s KRISHI LAND FARM **DEVELOPERS PRIVATE LIMITED PUNEET NANDA**

Director DIN: 00333621 Date: 18.03.2021

Kohli & Sobti Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact

ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Andheri (East). Mumbai- 400059 ORIX

(Notice under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from ORIX Leasing & Financial Services India Limited. The loans of the below mentioned borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI Guidelines. Amounts due by them to ORIX Leasing & Financial Services India Limited, are mentioned as per the respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Type of | Name of Borrowers Outstanding | Notice Date | Details of Secured Asset S | Loan Account as per 13(2) **Notice** 1. LALIT BAJAJ 12-Mar-21 HNO. C-02. KH.No. 0000000013499 2. ANITA BAJAJ 5286859.11/ 265/2, PH.No. 113/44, Secured 3. MANISH PANJWANI Rani Durgawati Ward Loan Vihar. (Guarantor) No.45, Pragati Village Sahayog Park, Raipur. Chhattisgarh-492001

You are hereby called upon to pay the amounts due to ORIX Leasing & Financial Services India Limited as per details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs. charges etc., within **60 days** from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec. 14 of the SARFAESI Act, against the mortgage properties mentioned herein above to realize the amount due to ORIX Leasing & Financial Services India Limited. Further you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale/lease or otherwise.

Place: Raipur


Date: 17.03.2021

Nowgam Bye-Pass

Printing & Supply of Cheque Books / Security Forms for a period of

Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from and BIDs can be submitted on the Banks' e-Tendering Service Provider Portal

e-RFQ Ref. No. JKB/CSD/F-146/2021-406



applicant(s) has/ have applied for issue of duplicate share certificate(s): Share Holder Name(e)/ Folio No / No. of Shares | Details of Fourity Shares Lost

Any person(s) who has/ have any claim in respect of such aforesaid equity shares must

For Escorts Limited

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401 | Phone: 91-7419885077 Email: newtimeinfra2010@gmail.com | Website: www.newtimeinfra.in NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given to the Members of Newtime Infrastructure Limited ("Company") that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, April 09, 2021 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act,

April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred The Company has on 17th March, 2021 duly completed the dispatch of Notice to Members

notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 03rd April, 2021 to 09th April, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 36th Annual General Meeting (AGM) by electronic means ('remote evoting"). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode

 The remote e-voting period commences on 06th April, 2021 and ends on 08th April Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose name is recorded in the register of members or in the

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the

Website www.bseindia.com. . For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr.

Ashish Pandit (Director)

Date: 17.03.2021

Mortgagors and Doda W/o Sh. Joginder Pal. Guarantors: - Smt. Neeta Doda W/o Sh. Joginder Pal R/o 80 F/F Anand Vihar, Pitampura, Saraswati

Formert Money | Date 9 Time | Date 9 Time | Type of

Authorized Officer

DCB Bank Limited

Date: 12/03/2021

11. Last date for submission of Claims

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only.

Date: 17.03.2021 Liquidator of Global Interactive Malls Private Limited Place : New Delhi Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00894/2017-2018/11491 New Delhi

Address and Email of the liquidator

16/04/2021 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Principal Bench has ordered

Mahavir Parshad Jain

Place: New Delhi

financialexp.ep

Place: New Delhi

Date: 17.03.2021

राजधानी में कोरोना के 536 नए मामले, तीन मौत

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 17 मार्च

दिल्ली में कोरोना विषाणु संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड ली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मृताबिक बुधवार को दिल्ली में संक्रमण के 536 नए मामले सामने आए और तीन मरीजों की मौत हो गई। लगातार बढ रहे इन मामलों की वजह से अब सिक्रय मामलों की संख्या बढ़ कर 2,702 हो गई है और 1,438 मरीज ऐसे हैं जिनका

इलाज एकांतवास में किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 6,45,025 मामले सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में से कुल 6,31,375 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस

बीमारी की वजह से अब तक 10,948 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल संक्रमण दर 4.77 फीसद और मृत्युदर 1.70 फीसद रही है।

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मामले बढ़ने के बाद कोरोना प्रावधानों के अनुसार दिल्ली में नए सील क्षेत्र बनाने की

आवश्यकता पड रही है। अब दिल्ली में सील क्षेत्र की संख्या बढ़कर 608 हो गई

इस समय दिल्ली के अस्पतालों में 725 और कोरोना देखभाल केंद्र में तीन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण की 1,35,09,270 मरीजों की संक्रमण जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 50,216 आरटी पीसीआर और 30,640 एंटीजन जांच की गई हैं।

दिशा रिव की याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत का केंद्र व पुलिस को आखिरी मौका

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 मार्च।

अदालत ने ट्रलिकट मामले में कथित आरोपी दिशा रवि की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार और पुलिस को आखिरी मौका दिया। दिशा ने अपनी याचिका में पलिस को मामले में दर्ज प्राथमिकी और जांच संबंधी सामग्री मीडिया को कथित तौर पर लीक करने से रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध

उच्च न्यायालय की जज प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार

मिंडा फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी– 64 / 1, वजीरपुर

इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली -110052

CIN: U67120DL1985PLC021349 ईमेल आइडी : lalitk@mindagroup.com

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

मिंडा फाइनेंस लिमिटेड

(CIN: U67120DL1985PLC021349)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: बी- 64 / 1,

वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली -110052

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदशक के समक्ष कंपर्न

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल

का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत

कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" र

'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए बधवार, 30 सितम्बर 2020 को दोपहर 12 बजे

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

'वीसी') / अन्य ऑडियो विज्ञल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक में

पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का

कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय

निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14

कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई

दिल्ली- 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है

और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

मिंडा फाइनेंस लिमिटेड

प्रमोद कुमार गर्ग

र्णकालिक निदेशक)

डीआईएन: 00008042

निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। बी-64 / 1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया,

दिल्ली-110052

दिनांक: 18.03.2021

स्थान:दिल्ली

में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

....आवेदक कंपनी / याचिकाकत्तां

और दिल्ली पुलिस को मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई को सुचीबद्ध कर दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया जाता है। और इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी चेतन शर्मा और केंद्र के वकील

Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर एवं मध्य) 1398, प्रथम तल, चाँदनी बौक, दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-23832226

शुद्धि पत्र

क्पया इस समाचार पत्र में दिनांक 09.03.2021 को प्रकाशित 26.03.2021

(15 दिवसीय सचना) को नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत्

"मेगा ई-नीलामी बिक्री सुचना" के विज्ञापन का सन्दर्भ लें। क्रम सं. 7 घोण्डा,

दिल्ली शाखा, खाते का नामः इंदु हॉजिरी में सम्पत्ति तथा स्वामी का विवरण गलत

प्रकाशित हो गया है। सम्पत्ति तथा स्वामी का सही विवरण इस प्रकार पढ़ें:

"आवासीय सम्पत्ति पुराना सं. 995/188, नया नं.IX/1908, प्लॉट सं.74, गली

नं.3 का पश्चिमी भाग, 3 मंजिला भवन, कैलाश नगर, निकट जैन मन्दिर, गाँधी

नगर, शाहदरा, दिल्ली-110031 पर स्थित, कमलावती देवी पत्नी स्व0 श्री कंवर

सेन जैन के नाम पर। सीमाएं: उत्तर: 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: 22 फीट चौड़ी

सड़क, पूर्वः जय लाल का मकान तथा शेष प्लॉट सं.74 का भाग, पश्चिमः सुरिन्दर

सिंह का मकान।" नियम एवं शर्तो सहित अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

पुलिस की ओर से पेश वकील अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। बता दें कि किसान के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी टुलिकट में संलिप्त होने के आरोप में 13 फरवरी को दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 19 फरवरी को उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी।

राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म स्थान राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो : सिन्हा

को जागृत किया। उन्होंने कहा हैं। सिन्हा ने कहा कि ऐसे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 मार्च।

सांसद और भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मस्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। बिहार के बेगुसराय स्थित इस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग सिन्हा ने विशेष उल्लेख के तहत उठाई।

सिन्हा ने शून्य काल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि श्रेष्ठ साहित्यकार अपनी कालजयी रचनाओं से समाज को प्रगतिशील बनाता है। वर्तमान ही नहीं पीढियों को प्रभावित और प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी ने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि सामाजिक चेतना सार्वजनिक नैतिकता के भाव

इंग्नू के आवेदन की तिथि 31 तक

नई दिल्ली। 17 मार्च। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय ने जनवरी सत्र 2021 में दाखिला के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। छात्र इंग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। (जसं)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी याचिका सं. सीएए-25 (पीबी)/2021 कम्पनी आवेदन सं. सीए(सीएए)-125(पीबी)/2020 से सम्बद्ध कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में तथा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 एवं 232 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के मामले में

उसी तरह भारत के लिए दिनकर साहित्यकार और समाज तीनों

निम्नलिखित के समामेलन की योजना मामले में स्लोकम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं एचसीएल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके संबंधित शेयरधारकों तथा

लेनदारों के मामले में स्लोकम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 44, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्वी), नई दिल्ली-110065 पर है

..... याचिकाकर्ता सं. 1/अन्तरक कम्पनी सं. 1 एचसीएल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 44, फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्वी), नई दिल्ली-110065 पर है। ... याचिकाकर्ता सं. २/अन्तरक कम्पनी सं.

वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकत कार्यालय सीपी-3, सेक्टर

8, आईएमटी मानेसर, हरियाणा-122051 पर है गैर-याचिकाकर्ता/अन्तरिती कम्पनी

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 एवं 232 के तहत याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा संयक्त रूप से समामेलन की योजना के अनुमोदन हेतु 25 जनवरी, 2021 को याचिका प्रस्तुत की गयी है और कथित याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष 6 मई, 2021 को सुनवाई हेतु निर्धारित की गयी है। कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने वाले किसी व्यक्ति को अपने इरादे की सचना याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास अपने द्वारा या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते सहित इस प्रकार भेजी जाये ताकि वह याचिकाकर्ता कम्पनी के पास अधिवक्ता के याचिका की सुनवाई की निर्धारित तिथि से अधिकतम दो दिन पूर्व पहुँच जाए। यदि वह याचिका का विरोध करता है तो इस सचना के साथ विरोध की पृष्ठभूमि अथवा अपना शपथपत्र उल्लिखित करना होगा। याचिका की एक प्रति इसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के पास इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। दिनांक : 18 मार्च, 2021

एडवोकेट राजीव कुमार (याचिकाकर्ता कम्पनियों के अधिवक्ता) 34, बाबर लेन, प्रथम तल, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक



कि 'रश्मिरथी' और 'संस्कृति

के चार अध्याय' जैसी दिनकर

की कृतियां राष्ट्रीय साहित्य ही

नहीं बल्कि वैश्विक साहित्य का

हिस्सा हैं। दिनकर की रचनाओं

में व्यापक मानवीय मुल्यों को

उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित

किया गया। 1972 में उन्हें

प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया

गया। जिस तरह वैश्विक

साहित्यकारों में ब्रिटेन के लिए

शेक्सपियर, रूस के लिए

पृश्किन और लियो टॉलस्टाय हैं,

सिन्हा ने कहा कि 1959 में

संबोधित किया गया है।

एसे महान व्यक्तित्व की स्मृति को सहेज कर रखना सरकार व समाज का दायित्व

महान व्यक्तित्व की स्मृति को

सहेज कर रखना सरकार और

दिनकर का जन्म बिहार में

बेगुसराय के सिमरिया में हुआ

स्थान को देखने के लिए आते

हैं। दिनकर के परिवार के

सदस्यों ने उनसे संबंधित चीजों

को सहेज कर रखा है। सिन्हा ने

कहा कि संस्कृति मंत्रालय को

उनके घर को राष्ट्रीय धरोहर

दिनकर का सम्मान साहित्य.

घोषित करना चाहिए।

था। सैकडों लोग उनके जन्म

भाजपा नेता ने कहा कि

समाज, दोनों का दायित्व है।

के प्रति सम्मान ही नहीं बल्कि पीढियों को उत्सावर्द्धन करने वाला साबित होगा। यह साहित्य. कला और संस्कृति के प्रति सरोकार और संवदेनशीलता का भी परिचायक होगा।



माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मुल कंपनी क्षेत्राधिकार) सी,पी,नं,436/2012 में कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

मैसर्स एम एंड ए ओरियंट एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड (समापनाधीन) के मामले में सभी लेनदारों और कर्मकारों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529, 529ए और 530 के अधीन अपने दावों/निवेशों को साबित करने हेत् सूचना का विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय के 18.02.2021 को पारित आदेश के अनुसार उक्त नामित कंपनी के कर्मकारों/प्रतिभृत लेनदारों/अप्रतिभृत लेनदारों और अन्य लेनदारों को एतदद्वारा सृचित किया जाता है कि उनको माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से संलग्न शासकीय समापक (आफिशियल लिक्वीडेटर) को उक्त कंपनी के विरुद्ध अपने संबंधित निवेश/दावों के सबतों को जमा करने की अपेक्षा की है, जिसे 15.04.2021 तक शासकीय समापक के कार्यालय में दिया जा सकता है या शासकीय समापक को डाक द्वारा भेजा जा सकता है, ताकि यह शासकीय समापक का कार्यालय, दिल्ली में उक्त तारीख तक पहुंच जाए। अपने निवेश/दावों के समर्थन में उनसे कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र सं. 66 में न्यायिकेतर (नॉन ज्युडिशियल) स्टांप-पत्र पर एक शपथपत्र के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए और 530 के अधीन अपने निवेश/दावों को साबित करने वाले मुल दस्तावेजों की प्रति तथा किसी प्रकार के प्राथमिकता के हक को जमा करने की अपेक्षा की जाती है। उक्त कंपनी का कोई भी कर्मकार/प्रतिभूत लेनदार/अप्रतिभृत लेनदार जो उक्त समय-सीमा के भीतर अपना शपथपत्र या अपने ऋणों के सब्दत जमा करने में असफल रहता/रहती है तो उसे उसके निवेश/दावों के साबित होने या जैसा भी मामला हो, के पूर्व किसी प्रकार की हकदारी के लाभ से तथा ऐसी हकदारी के लिए आपनि जताने से अपवर्जित कर दिया

उक्त कंपनी का कोई भी कर्मकार/प्रतिभृत लेनदार/प्रतिभृत लेनदार जिसने अपने सबत भेज दिए हैं, यदि ऐसा है तो, शासकीय समापक, दिल्ली से लिखित सुचना द्वारा स्वयं या उसके एडवोकेट द्वारा ऐसे ऋण या दावे की जाँच पर ऐसे समय और स्थान, जैसाकि उस सचना में निर्दिष्ट होगा, पर उपस्थित होना अपेक्षित होगा और अपने ऋणों या दावों के आगे ऐसे सबूत पेश करेंगे जैसा अपेक्षित हो।

कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के प्रपत्र सं.66 को डाउनलोड करने हेतु वेबसाइट www.delhiol.gov.in और www.mca.gov.in देखें। (डी.के. सिंह)

> शासकीय समापक, दिल्ली माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से संलग्न 8वां तल, लोक नायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 15 मार्च, 2021

(n) IDBI BANK CIN: L65190MH2004GO1148838

208. भ तल. मर्केन्टाइल बिल्डिंग. मैन फतेहपरी चौक, चांदनी चौक, नई दिल्ली, पिन- 110006 [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना

आईडीबीआई बैंक लि.

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हिर (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.10.2020 जारी कर ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर मै. जगदीश पेपर्स कॉर्पोरेशन (प्रॉप्राईटर श्री जगदीश प्रसाद स्वामी) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.03.2020 को रु. 30,88,395.85 (रुपये तीस लाख अठासी हजार तीन सौ पंचानवे एवं पैसे पचासी मात्र) के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टर्स तथा आम जनता को सुचित किया जात है कि आज. 12 मार्च. 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों/ मार्टगैजर्स/ गारन्टर्स तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क

उपरोक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक/ मार्टगैजर्स/ गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे,

किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.03.2020 को रु. 30,88,395.85 (रुपये तीस लाख अठासी हजार तीन सौ पंचानवे एवं पैसे पचासी मात्र) के साथ उस पर आगे के ब्याज के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के चाज

ऋणधारक सह-ऋणधारकों/ मार्टगैजर्स/ गारन्टर्स का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

भू तल, माप 6.96 वर्ग मी. पर फ्रीहोल्ड एक व्यावसायिक दुकान, प्रा.नं. 05, बिना छत के अधिकार के, जो सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 947, 948, 949 का भाग है जो छोटा छिपिवारा खुर्द, छत्ता शाहजी, चावड़ी बाजार, वार्ड नं. IV, दिल्ली में स्थित है तथा चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्व में या उस ओर: श्री विशम्बर दयाल की सम्पत्ति, पश्चिम में अथवा उस ओरः सम्पत्ति सं. 946/2498 अब्दुल कादर साहब की सम्पत्ति, उत्तर में या उस ओरः अब्दुल कादर साहब तथा महल सराज, छिपिवारा खुर्द, चावड़ी बाजार, दिल्ली की सम्पत्ति सं. 2498, दक्षिण में या उस ओरः सम्पत्ति सरकारी चौक तथा मेला राम मार्केट तथा उसके साथ उस पर सभी भवन तथा स्ट्रक्चर्स तथा वहां की भूमि से जुड़ी प्लान्ट एवं मशीनरी अथवा वहां की भूमि से स्थाई रूप से जुड़ी कोई भी सम्पत्ति।

तिथि: 12.3.2021 स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक लि

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN:L24239HR1984PLC040797 पंजी. कार्या.: लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाडी अलवर बाईपास, 75वाँ एमटीआर रोड धारूहेड्डा रेवाडी 123401, फोन: +91-7419885077 ईमेलः newtimeinfra2010@gmail.com; वेबसाईटः www.newtimeinfra.in

36वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंद होने की सुचना रतद्वारा न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 तथा सेबी (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' संदर्भित) के अनुपालन में कम्पनी की 36वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमें (''ओएवीएम'') के माध्यम से शुक्रवार, 9 अप्रैल, 2021 को 12.30 बजे अप. आयोजित की जार्न

कम्पनी ने उन सदस्यों के पास वित्त वर्ष 2019-20 की 36वीं वार्षिक आम सभा की सूचना तथा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के विवरण सहित ई-वोटिंग निर्देश इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य 17 मार्च 2021 को विधिवत पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंद तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के माध्यम से एजीएम की सूचन

की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता से छूट दे दी गयी है। यथा संशोधित एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कम्पर्न (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली. 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 201 (''अधिनियम'') की धारा 108 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एव प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधने ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा 36वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार क प्रयोग करने में सक्षम करने हेतू सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराने में प्रसन्नता का अनुभव करती है इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऑनलाइन मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान में उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने बैठक की तिथि से पूर्व निर्धारित मतदान अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन मतदान पहले हो कर लिया है वे एजीएम को तिथि पर आनलाइन मतदान के पात्र नहीं होगे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए एजेंसी कें रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (इसके पश्चात ''सीडीएसएल'' संदर्भित) र्क सेवाएं ग्रहण की हैं। अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं : 1. रिमोट ई–वोटिंग 6 अप्रैल, 2021 को प्रारम्भ होगी और 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त होगी। इसके

पश्चात मतदान हेत रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। . भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य तथा ऐस व्यक्ति जिसका नाम 2 अप्रैल, 2021 की कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक साधने

के माध्यम से एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। 3. कोई व्यक्ति जिसने शेयर अर्जित किया है और एजीएम की सचना भेजे जाने के उपरान्त किन्त 'कट-ऑफ तिथि' सं, पूर्व सदस्य बन गया है, वह ई-वोटिंग हेतु कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मंन्दिर, नई दिल्ली-110062, दूरभाष : 011-29961281-83, ई-मेल : beetalrta@gmail.com से अपना यूजर

आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से ही पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु अपने वर्तमान युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग . एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.ir

तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और साथ ही बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

5. रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य 36वीं एजीएम की सूचना में 'नोट्स' खण्ड का संदर्भ ले सकते हैं।

5. जिन सदस्यों ने बैठक से पर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे भी वीडियों कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे ऑनलाइन मतदान के माध्यम से दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

. यदि आप एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग करने संबंधी कोई पूछताछ य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड के तहत् उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें या सम्पर्क करें श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) याश्री राकेश दलवी (022-23058542) 1

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 17.03.2021

न्यू इन्टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

डीआईएन : 00139001

आशीष पंडित (निदेशक)

Police Head Quarter, ITO New Delhi अजय दिगपाल एवं दिल्ली DCP South & DCP Vigilance Reference case diary NA-1790-C, dated 11th march 2016 complained against Mohd Mubin of 187 Nizamudin New Delhi & against Inspector Ajay KumariASI Gopal Prasad. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

direct to registration of FIR.

for offence's 325/308/323/147/148/149/506/342/348/201/204/217/218/349 - IPC. The complainant is 45. years old R/o G-38, Nizamudin, N.D-13, that on morning 8th March 2016. Sheikh zahid age 18 years was in Maruti Ertiga with youngest son Ayan age 9 years Mohd Zahin was going for dropping his younger brother to school at YMCA, Nizamudin

About 8:30 Scotty driven by Mohd Mobin hit the car from backside when Mohd. Zaid was reversing the car at petrol pump. Mohd. Mobin started guarreling and assaulted Mohd. Zaid. In the meanwhile 6 - 7 person arrived at the spot on Scotty and car. Mohd. Mobin used very abusive and filthy words and directed those person and sons with dunds, pipes and kicks. Due to mercilessly beating Mohd Amir received multiple injuries complainant also lost his gold chain and cash of about Rs.5000i-Police constable was present at that point and was not intervene in the matter and was recording the whole seen. The whole incidence of merciless beating was recorded at the CCTV in the Perfol nump. The PCR van come and quickly took them to Jay Prakash Hospital. The complain was examined vide TC Number 600-54-6552 dated 8th March 2016. Mohd. Shelkh Zaid was advised for admission but because of unavailability of bed he was referred to Saftarjung Hospital. MCC Registration No. 47737 and X-Ray of chest abdomen and face and nose. The complainant requested Ajay Kumar inspector to register an FIR Against the accused Mohd Mubin and

his other 6-7 goonda who gave merciles to the complainatant and his sons. Aprehending the false implication and arrest by the inspector Ajay Kumar threat and greed to compromise. The accused Mohd. Mobin and his Gunda's again beat the complainant who suffered Multiple injuries on face, chest and back. Despite request by the complainant for register of FIR. and record at petrol pump CCTV. No complaint was filled against Mohd. Mobin and his other gunda

You are requested to take immediate and urgent action the delinquent police officials and

संग्रहासी अधिनियम २००२ की धाण ४३(२) के

Shelkh Mohd, Umar

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया G-38, Nizamudin West. पंजाब मेशनल बैंक unjab national bank ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) मण्डल सस्त्रा केन्द्र, उत्तरी दिल्ली, गुरूद्वारा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, ईमेलः cs8292@pnb.co.in, फोन नं. 011-28759561, 28759562

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

100	π. ਜਂ.	खाते का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	अंतर्गत मांग सूचना की तिथि बकाया राशि सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुराक्षत लनदारा को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं पता
	96	पीएनबी रोहिणी सेक्ट -5 श्री ललित कुमार पुत्र श्री बृज लाल (उधारकर्ता सह बंधककर्ता) श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री बृज लाल (सह उधारकर्ता सह बंधककर्ता) भूतल, (बिना छत के अधिकार संपत्ति नं. 60, पोंकेंट 12, सेक्टर 20, रोहिणी, दिल्ली 110086, संतोष देवी पत्नी श्री बृज लाल (सह-उधारकर्ता सह बंधककर्ता) एक्स-1/44बुद्ध विहार फेज-1 दिल्ली-110088	अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे पूर्ण चुकौती की तिथि तक	सम्पत्ति क्षेत्रफल 517 वर्ग फीट, मूतल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. 60, पॉकेट 12, रोहिणी, दिल्ली—110086 में स्थित, बेडरूम से मिलकर, एक रसोईघर, एक ड्राइंग रूम सह डाईनिंग, एक वॉशरूम और एक बालकनी	হ. 17.00 লাख হ. 1.70 লাख [22.04.2021] হ. 25,000/-	23-04-2021 पूर्वाह 11.00 बजे से अर्पाह 02.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री नरेन्दर सिंह बिष्ट मो. 8171626615 प्राधिकृत अधिकारी मण्डल शस्त्रा उत्तरी दिल्ली
		पीएनबी रोहिणी सेक्ट5, दिल्ली मनदीप सिंह (कर्जदार सह बंधककर्ता), श्रीमती अर्शनूर कौर (कर्जदार सह बंधककर्ता), (गारंटर) कवलजीत कौर, के-55 द्वितीय तल, फतेह नगर तिलका नगर दिल्ली -110018	अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे पूर्ण चुकौती	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि के-55, द्वितीय तल, फतेह नगर, तिलक नगर, दिल्ली-110018 में स्थित, यह सम्पत्ति गारंटर श्रीमती कवंलजीत कौर के नाम पर है।	চ. 27.50 লাভ্র হ. 2.75 লাভ্র [22.04.2021] হ. 25,000/-	23-04-2021 पूर्वाङ 11.00 बजे से अपीड 02.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री नरेन्दर सिंह बिष्ट मो. 8171626615 प्राधिकृत अधिकारी मण्डल शस्त्रा उत्तरी दिल्ली

🖆 —नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्ती के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई—नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in , www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें । सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

आरक्षित मूल्य (रु.)

दिनांक : 17.03.2021, स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda 日 一部級

डासना शाखाः प्लॉट नं. 14, नगर पालिका कार्यालय के पास, दिल्ली — हापुड़ रोड़, एन.एच. — 24, गाजियाबाद (यू.पी)

चल वाहन / आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) के शर्त सहित / प्रतिबंध के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित

का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल वाहन / आस्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक 19.04.2021 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी। प्राधिकृत अधिकारी

शाखा का नाम / वाहन / आस्तियों का विवरण कब्जा स्थिति धरोहर राशि जमा खाता विवरण, ई-नीलामी कुल देनदारी घरोहर राशि का नाम / आईएफएससी कोड और शाखा (नीचे वर्णित संपत्तियों के समस्त भाग एवं अंश) कर्जदार / गारंटर्स का नाम एवं पता तिथि एवं समय सम्पर्क व्यक्ति न्यूनतम बोली वृद्धि राशि श्री लाइक्र रहमान पुत्र श्री अब्बास अली, मकान ₹ 2,43,100/-रु. 5,60,842.01 (रु. पाँच लाख A/c no. 41850015181869 Renault Duster, Registration No. भौतिक 19-04-2021 मयंक भारद्वाज नं. 51, मोहल्ला नालीपाड़ा, मसुरी, जिला UP14BY3786, Chasis No. साठ हजार आठ सौ ब्यालीस और IFSC - BARBODASNAX मो. 8929163220 को अर्पा. 01.00 ₹ 24,300/-गाजियाबाद यूपी 201202, गारंटर: श्री हबीबुर पैसे एक मात्र) दिनांक 15.10. बजे से अर्पा. MEEHSRAW5D3017138, Registration Date: ₹ 10,000/-रहमान पुत्री अब्बास अली, मकान नं. 51, 2020 से भविष्य का ब्याज, अन्य 03.00 बजे तक 26-04-2013, Manufacturing Year: 04/2013, मोहल्ला नालीपाड़ा, मसुरी, जिला गाजियाबाद प्रभार और खर्चे और अंचार्ज Seating Capacity: 5 Including driver यूपी 201202 ब्याज मांग सूचना दिनांक 20.10. 2020 के अनुसार धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 17.04.2021 नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक अर्थात https://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm, https://bob.auctiontiger.net & www.bankofbaroda.com देखें

दिनांक : 17-03-2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com